



Class – VII Hindi Notes November

NOVEMBER MONTH PORTIONS:

- पाठ - 10 - ड्रोन विमान
- पाठ - 11. एक अनोखा पत्र
- कविता - 12 - फूलों से नित हँसना सीखो

पाठ - 10 - ड्रोन विमान

I शब्दार्थ:-

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. विमान - वायुयान | 7. जानकारी - सूचना |
| 2. सहायता - मदद | 8. आविष्कार - खोज |
| 3. फ्लाईंग रोबोट - उड़नेवाला यन्त्र | 9. उद्घाटन - शुभारम्भ |
| 4. नियंत्रित - नियंत्रण में रखा हुआ | 10. मदद - सहायता |
| 5. तकनीक - यांत्रिकी | 11. हित - भलाई |
| 6. खुफिया - गुप्त | |

II सही विकल्प चुनिए:-

1. ड्रोन विमान क्या है ? - फ्लाईंग रोबोट
2. निकोला टेस्ला कौन थे ? - महान वैज्ञानिक
3. नैनो ड्रोन का वजन होता है - 250 ग्राम
4. ड्रोन को कितनी ऊँचाई पर उड़ाया जाता है ? - 50 फीट तक

III खाली स्थान भरिए :-

1. निकोला टेस्ला ने 1915 में आटोमेटिक लड़ाकू विमान बनाया था ।
2. ड्रोन को व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

3. भारत में ड्रोन नीति 1 दिसंबर , 2018 में लागू की गई थी।

4. ड्रोन उड़ाने की निर्धारित उम्र सीमा है - 18 वर्ष।

IV मौखिक प्रश्नोत्तर:-

1. मानव रहित विमान किसे कहते हैं ?

उ:- ड्रोन को मानव रहित विमान कहते हैं ।

2. ड्रोन का आविष्कार किसने किया किया ?

उ:- ड्रोन का आविष्कार वैज्ञानिक निकोला टेसला ने किया था।

3. ड्रोन का उद्घाटन कब और किसने किया था ?

उ:- ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन - 27 मई 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ।

4. भारत दुनिया का ड्रोन हब कब तक बन जायेगा ?

उ:- भारत सन 2030 तक दुनिया का ड्रोन हब बन जायेगा।

V लिखित प्रश्नोत्तर:-

1. ड्रोन क्या है ? इसके कितने प्रकार हैं ?

उ :- *ड्रोन एक प्रकार का फ्लाईंग रोबोट है ।

*इसके पाँच प्रकार हैं. नैनी ड्रोन, माइक्रो ड्रोन , स्माल ड्रोन, मीडियम ड्रोन,
लार्ज ड्रोन ।

2 ड्रोन संबंधी शर्तें क्या हैं ? लिखिए।

उ:- * ड्रोन संबंधी शर्तें हैं:-

* स्माल ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और प्रशासन को सूचना देना.

* नैनो ड्रोन को 50 फीट से अधिक ऊँचाई पर न उड़ाना.

* केवल दिन में इसका उपयोग करना.

* रात में सामाजिक समारोह में केवल फोटोग्राफी के लिए उपयोग करना।

3. ड्रोन के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं ?

उ:- * इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

* इसके द्वारा युद्ध में सैनिकों के प्राण बचाए जा सकते हैं.

* यह वस्तुओं के होम डिलीवरी के लिए उपयोगी है.

* इससे समय की बचत होती है.

* ट्रैफिक अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता।

* फ़सल की देखभाल के लिए किया जा सकता है।

4. भारत की ड्रोन नीति का उल्लेख कीजिए ?

उ:- * भारत की ड्रोन नीति 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई।

* 18 वर्ष की उम्र से पहले, कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता ।

* उसका दसवीं पास होना जरूरी है।

भाषा से...

I इन वाक्यों स में से क्रियाविशेषण शब्द चुनकर लिखिए:-

क. आशीष हमेशा हँसता रहता है ।

हमेशा

ख. गाडी धीरे-धीरे चल रही है ।

धीरे-धीरे

ग. आसमान में विमान तेज़ी से उड़ रहा है ।

तेज़ी से

घ. वह धीरे-धीरे जा रहा है ।

धीरे-धीरे

II अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए :-

ANSWERS :- नियंत्रित, आविष्कार, आक्रमण, ऑटोमैटिक, फ़ोटोग्राफी, कीटनाशक, स्वचलित, भविष्य

III पर्यायवाची लिखकर वाक्य बनाइए:-

1. आविष्कार - खोज - वैज्ञानिक मनुष्य के हित के लिए आविष्कार करते हैं ।

2. विमान - यान - गौरव ने पहली बार विमान की यात्रा की ।

3. अनुमति - इज़ाज़त- प्रयोगशाला में शिक्षक की अनुमति से ही जाना चाहिए ।

4. छोटा- लघु - मैं एक छोटा विमान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ।

5. उपयोगी - लाभकारी - विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है ।

IV इन वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कीजिए :-

1. Aircraft is an integral part of human life.

विमान मानव जीवन का अभिन्न अंग है।

2. Drone is a flying device.

ड्रोन उड़ने वाला एक उपकरण है।

3. Drone is a type of flying robot.

ड्रोन एक प्रकार का उड़ाने वाला रोबोट है।

4. It will help in disaster management.

यह आपदा प्रबंधन में सहायता करेगा।

5. Confidential informations can be assessed by others.

गोपनीय सूचनाओं का मूल्यांकन दूसरों के द्वारा किया जा सकता है।

पाठ - 11. एक अनोखा पत्र

I शब्दार्थ:-

1. बेताबी - बैचेनी - restlessness

7. हनन - मारना, दबाना - to crush

2. आदर्श - ऊँची सिद्धांत - ideal

8. दृढ़ - पक्का - firm

3. निकृष्टतम - अत्यंत नीचतापूर्ण - the worst

9. बलिदान - त्याग - sacrifice

4. खदेड़ना - बलपूर्वक भगाना - chase away

5. शहीद - ए-आज़म - सबसे बड़ा शहीद martyr

6. घटनास्थल - वह स्थान जहाँ घटना घटी - sight of incident

II सही विकल्प चुनिए:-

1. भारतीय किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे ? - पूर्ण आज़ादी प्राप्त करना

2. इन स्वतंत्रता सेनानियों में से किसको मृत्युदंड नहीं मिला था ? - बटुकेश्वर दत्त को

3. भगत सिंह को क्या कहकर याद किया जाता है ? - शहीद - ए-आज़म

III मौखिक प्रश्न उत्तर :-

1. भगत सिंह कौन थे और उनके परिवार की क्या विशेषता थी ?

उ:- * भगत सिंह एक महान देशभक्त थे।

* उन्होंने देश के लिए अपने प्राण कर दिए।

* उनके परिवार के सभी सदस्य देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे।

2. बटुकेश्वर दत्त को क्या सज़ा मिली थी ?

उ :- उन्हें बंदी बना लिया गया था।

3. किस घटना के समय भगत सिंह केवल बाबा: वर्ष के थे ?

उ:- जलियाँवाला बाग की घटना के समय भगत सिंह केवल बारह वर्ष के थे।

4. 1928 में भारत आई ब्रिटिश कमेटी को क्या निर्णय लेना था ?

उ:- 1928 में भारत आई ब्रिटिश कमेटी को यह निर्णय लेना था कि, भारतीयों को कितनी आज़ादी और अधिकार दिए जा सकते हैं।

IV लिखित प्रश्न उत्तर :-

1. भगत सिंह की सोच अन्य कैदियों से भिन्न क्यों थी ?

उ:- * अन्य कैदी फाँसी से बचने की प्रार्थना कर रहे थे।

* भगत सिंह फाँसी के फंदे पर झूलने का इंतज़ार कर रहे थे।

* वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि, क्रांतिकारी देश पर बलिदान भी हो सकते हैं।

2. भगत सिंह के अनुसार क्रांतिकारियों को जीवित रहकर दुनिया कोई क्या दिखाना था ?

उ :- * वे अपने आदर्श के लिए फाँसी पर भी चढ़ सकते हैं।

* जेल में अत्याचार भी सहन कर सकते हैं।

3. अहिंसात्मक सत्याग्रह के अवसर पर क्या घटना घटी ?

उ:- अहिंसात्मक सत्याग्रह के अवसर पर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय पुलिस की लाठियों से घायल होकर शहीद हो गए थे।

4. भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या निर्णय लिया और क्यों ?

उ:- * दोनों ने असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया।

* वे भारतीयों की स्वतंत्रता की माँग को सही लोगों तक पहुँचाना चाहते थे।

5. मुकदमे के दौरान दोनों ने एक आवाज़ में क्या कहा ?

उ:- मुकदमे के दौरान दोनों ने एक आवाज़ में यह कहा कि, यदि बहरों को सुनाना हो तो, आवाज़ का ऊँचा होना ज़रूरी है।

भाषा से...

I सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए :-

क. भगत सिंह के हृदय में अपनी माता के प्रति अपार भक्ति थी।

ख. भगत सिंह ने प्रसन्नता पूर्वक धरती माँ की धूल अपने माथे पर लगाई।

ग. क्रांतिकारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए, काम है।

घ. रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया।

II स्वंत्रता, साहस, निश्चय, अधिकार --- शब्दों के साथ "पूर्वक" प्रत्यय लगाकर नए बने शब्दों से वाक्य बनाइए:-

स्वंत्रतापूर्वक - सभी प्राणियों को स्वंत्रतापूर्वक रहने का अधिकार है ।

साहसपूर्वक:- क्रांतिकारियों ने साहसपूर्वक ब्रिटिश सरकार का सामना किया।

निश्चयपूर्वक:- उसने घर वापस जाने की बात निश्चयपूर्वक की।

अधिकारपूर्वक :- अध्यापक ने अधिकारपूर्वक कहा कि सब शांत रहें।

III अब इन शब्दों की संधि के सही रूप लिखिए :-

1. सम् + यम = संयम

5. सम् + शोधन = संशोधन

2 सम् + रचना = संरचना

6 सम् + स्मरण = संस्मरण

3. सम् + लाप = संलाप

7. सम् + कृत = संस्कृत

4. सम् + विधान = संविधान

8. सम् + हारक = संहारक

IV निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विरमचिन्ह लगाइए :-

1. मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ।

2. क्या कल तुम आओगे ?

3. हामिद, मीरा, नीरा, और श्याम मेला घूमने गए.

4. अरे ! तुम यहाँ कैसे?

5. बाल गंगाधर तिलक ने कहा था , "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।"

V सही विकल्प पर लगाइए :-

ANSWRS :- क.कायरता ख.संवाद ग.सन्यासी, सेनानी, चिन्मय, संवाद, संहार

VI अपठित गद्यांश को पढ़ कर प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

क. समाचार पत्र किसे कहते हैं?

उ :- जिस पत्र में पूरे संसार की खबरों का संग्रह होता है, उसे समाचार पत्र कहते हैं।

ख. सबसे पहला समाचार पत्र कब छपा था?

उ :- सन 1780 में भारत का सबसे पहला समाचार -पत्र छपा था।

ग. जेम्स हिककी ने किस समाचार पत्र का सम्पादन किया था?

उ:- जेम्स हिककी ने " दी बंगाल गैज़ेट" का सम्पादन किया था।

घ:- हिंदी में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था?

उ:- हिंदी में प्रथम समाचार पत्र "उदंत मार्तंड" था।

कविता - 12 - फूलों से नित हँसना सीखो

कविता - 1-8 LINES - QUOTE FROM MEMORY:-

फूलों से नित हँसना सीखो, भौरों से नित गाना।

तरु की झुकी डालियों से नित, सीखो शीश झुकाना।

सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना।

दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना।

सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना।

लता और पेड़ों से सीखों, सबको गले लगाना।

वर्षा की बूंदों से सीखो, सबसे प्रेम बढ़ाना।

मेहंदी से सीखो, सब ही पर, अपना रंग चढ़ाना।

I शब्दार्थ:-

1. तरु - पेड़ - tree
2. किरण - प्रकाश - ray
3. स्वदेश - अपना देश - our country
4. दुःख - पीड़ा - sorrow
5. सच्ची - सत्य - true
6. अँधेरा - अंधकार - darkness
7. भौंरा - बड़ी मधुमक्खी - black bee
8. डाली - शाखा - branch
9. लता - पतली बेल - creeper
10. पतझड़ - वह ऋतु जिसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं - autumn
11. धीरज - धैर्य - patience
12. दीपक- दीया - earthen lamp
13. शीश - सिर - head
14. मिलाना - मिलान करना - affixation

II सही विकल्प चुनिए:-

1. हम जगना और जगाना किससे सीखते हैं ? - सूरज की किरणों से
2. हम स्वदेश प्रेम किससे सीखते हैं ? - मछली से
3. दुःख में धीरज रखने के लिए कौन कहता है ? - पतझड़ के पेड़

III चित्र से सम्बंधित पंक्तियाँ कविता मेंसे चुनकर लिखिए :-

ANSWERS :-

1. लता और पेड़ों से सीखो,
3. पृथ्वी से सीखो,

सबको गले लगाना।

प्राणी की सच्ची सेवा करना।

2. मछली से सीखो स्वदेश

4. दीपक से सीखो,

के लिए तड़पकर मरना।

जितना हो सके अँधेरा हरना.

IV मौखिक प्रश्नोत्तर :-

1. दूध और पानी किस प्रकार मिलने - मिलाने की सीख देते हैं ?

उ:- दूध और पानी - इस प्रकार मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि यह दूध है या पानी। उसी प्रकार हमें भी आपस में मिल-जुलकर रहना चाहिए।

2. पतझड़ के पेड़ दुःख में धीरज रखने की सीख कैसे देते हैं ?

उ:- * पतझड़ के पेड़ के लगभग सारे पत्ते गिर जाते हैं।

* फिर भी पेड़ दुखी नहीं होता।

* वह धैर्यपूर्वक आने वाले मौसम का इंतजार करता है।

* अगले मौसम में उसपर नए पत्ते आ जाते हैं।

* इस प्रकार हमें भी मुसीबत में धैर्य रखना चाहिए।

* विश्वास रखना चाहिए कि, जीवन में फिर से सुख आएगा।

V लिखित प्रश्नोत्तर:-

1. सबसे प्रेम करने की सीख देता है?

उ:- सबसे प्रेम करने की सीख वर्षा की बूँदें देती है।

2. दीपक से क्या सीख सकते हैं ?

उ:- दीपक से हमें सीख मिलती है कि, खुद का नुकसान सहकर भी दूसरों को खुशी देनी चाहिए।

3. सब पर मेहंदी की तरह अपना रंग चढ़ाने का क्या अर्थ है ?

उ:- सब पर मेहंदी की तरह अपना रंग चढ़ाने का अर्थ है - अपनी अच्छाइयों से दूसरों को प्रभावित करना।

भाषा से...

I इन पंक्तियों में आये क्रिया शब्दों पर गोला लगाइये:- ANSWERS :- हँसना, सीखो, गाना, सीखो, झुकाना।

II पर्यायवाची शब्द लिखिए:-

1. फूल- पुष्प , सुमन

4. पेड़ - वृक्ष, तरु

2. हवा - वायु, पवन

5. पानी- जल, वारि

3. सूरज - सूर , दिनकर

6. मछली - मीन, मत्स्य

III हिंदी में अर्थ लिखिए :-

1. Patience - धैर्य

5. Branch - शाखा

2. Tree - पेड़

6 .Ray - किरण

3. Earthen lamp - दीपक

7. True - सत्य

4. Autumn - शरद

8. Darkness - अन्धकार

IV दिए गए वाक्यांशों के लिए "ली" से अंत होने वाला एक शब्द लिखिए:-

1. बगीचा का रखवाला - माली

6. खाने वाली चीज़ का नाम - इडली

2. बरसात में चमकती है - बिजली

7. पानी में रहती है - मछली

3. एक त्योहार का नाम - होली

8. ओणम में बनाते हैं - रंगोली

4. एक घरेलू जानवर - बिल्ली

9. सखी का समानार्थी है - सहेली

5. एक शहर का नाम - दिल्ली

V अपठित पद्यांश को पढ़कर , प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

1. थकी साँझ किसका प्रतीक है ?

उ :-थकी साँझ निराशा का प्रतीक है।

2. कवि ऊब क्यों गया था ?

उ:- कवि निराशा और खालीपन से ऊब गया था।

3. कवि को चाँद में क्या दिखाई दे रहा है?

उ:- कवि को चाँद के रूप में एक मित्र दिखाई दे रहा है।

NOTE :

Add लिखित प्रश्नोत्तर for II – Language.
